



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं० पटना 1252) पटना, बृहस्पतिवार, 17 जुलाई 2025

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2025

सं० 15/FSC/67/2024-824(15)/स्वा०—भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) में नियुक्ति एवं अन्य सेवा-शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। -

- (1) यह नियमावली "बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र (गजट) में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। - जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (i) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य;
- (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
- (iv) "खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य संरक्षा आयुक्त का कार्यालय;
- (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
- (vi) "अधिनियम" से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34, 2006) [समय-समय पर यथा-संशोधित];
- (vii) "नियमावली" से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 एवं (समय-समय पर यथा संशोधित);
- (viii) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा;
- (ix) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक संवर्ग;
- (x) "केन्द्रीय परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है राजस्व परषद्, बिहार के अधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;
- (xi) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार।

- (xii) “नियंत्रि प्राधिकार” से अभिप्रेत है राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त,  
 (xiii) “राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-30 एवं नियमावली के उप नियम-2.1.1 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तर का कोई पदाधिकारी।  
 (xiv) “परिशिष्ट” से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।  
 (xv) “नियत तिथि” से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि।

### 3. संवर्ग की संरचना।—

- (1) बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्रमांक	पदनाम	कोटि
1	2	3
1.	खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)	मूल कोटि
2.	वरीय खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)	प्रथम पद सोपान
3.	उप निदेशक, प्रयोगशाला (राजपत्रित)	द्वितीय पद सोपान

- (2) उक्त संवर्ग की सभी कोटि के पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं स्वीकृत किया जाय।  
 (3) नियत तिथि के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत/कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग के समकक्ष पद पर स्वतः सम्मिलित समझे जायेंगे।

### 4. भर्ती।—

- (1) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा, आयोग की अनुशंसा से की जायेगी।  
 (2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट-01 के अनुसार होगी।  
 (3) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, निर्धारित की जाय। विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

### 5. भर्ती की प्रक्रिया।—

- (1) नियंत्रि प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर आरक्षण कोटिवार, अध्याचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।  
 (2) अध्याचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर नियमानुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगा तथा आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएगा।  
 (3) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पत्र एवं पाठ्यक्रम/विषय वही होंगे, जैसा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाय।  
 (4) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।  
 (5) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त समर्पित करना अनिवार्य होगा कि उनका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित शामिल नहीं है।

**6. परीक्षा अवधि।—**नियुक्ति के उपरांत सभी खाद्य विश्लेषक एक वर्ष तक परीक्षाधीन रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार एक और वर्ष के लिए किया जायेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, सेवामुक्त किया जा सकेगा।

### 7. प्रशिक्षण।—

- (1) परीक्षा अवधि के अधीन खाद्य विश्लेषक को बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली, 2024 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।  
 (2) राज्य सरकार/राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त/भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

**8. विभागीय परीक्षा।—**खाद्य विश्लेषक को केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्वट, बिहार) द्वारा आयोजित विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा

समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा विभाग के परामर्श से, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से, किया जायेगा।

**9. संपुष्टि।**—परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा होने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त होने के पश्चात् खाद्य विश्लेषक को सेवा में संपुष्टि किया जा सकेगा।

**10. वरीयता।**—संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत पदाधिकारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश/परिपत्र के अनुसार किया जायेगा।

**11. प्रोन्नति।**—

- (1) सेवा में संपुष्टि खाद्य विश्लेषक को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता-सह-योग्यता के अनुसार प्रोन्नति के पद सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- (2) प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत, प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी०ए०आर० संबंधी आरोप विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- (4) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, सेवा विभागों के लिए निर्धारित किया जाय।

**12. आरक्षण।**—राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

**13. अवशिष्ट मामलें।**—इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उसके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/अधिसूचना/संकल्प/अनुदेश/परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे।

**14. निर्वचन।**—यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संशय उत्पन्न हो तो विभाग द्वारा, विधि विभाग/सामान्य प्रशासन के परामर्श से, किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

**15. कठिनाई का निराकरण।**—यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगा।

**16. निरसन एवं व्यावृत्ति:—**

- (1) इस संवर्ग नियमावली के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व से अधिसूचित बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 एवं समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली, 2019 एवं 2021, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, वैसी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, अधिसूचना, आदेश, आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
लोकेश कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

## परिशिष्ट-1

[देखे नियम 2(Xiii), 3, 4, 11]

खाद्य विश्लेषक संवर्ग के पद सोपान एवं शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि।

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा	अर्हता
1	2	3	4	5
1.	मूल कोटि	खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान या पशु विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण या डेयरी प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या पशु विज्ञान में स्नातक या मास्टर या डाक्टरेट डिग्री रखता हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो तथा जिसे खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ; (2) खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
2.	प्रथम पद सोपान	वरीय खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)	प्रोन्नति द्वारा	
3.	द्वितीय पद सोपान	उप निदेशक (प्रयोगशाला) (राजपत्रित)	प्रोन्नति द्वारा	

16 जुलाई 2025

सं०-15/FSC/67/2024 / 824(15)स्वा०-अधिसूचना संख्या-/824(15) दिनांक -16/07/2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
लोकेश कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

The 16<sup>th</sup> July 2025

No.-15/FSC/67/2024 -825(15)—In exercise of powers conferred under proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to regulate the appointment and other service conditions of the Food Safety Service (Food Analyst Cadre) under the Health Department:-

**1. Short title, extent and commencement. -**

- (1) These rules may be called as the "Bihar Food Safety Service (Food Analyst Cadre) Rules, 2025".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from publication in official gazette.

**2. Definitions. -** Unless otherwise requires in the subject or context, in these Rules.-

- (i) "State" means State of Bihar;
- (ii) "Government" means Government of Bihar;
- (iii) "Department" means Health Department;
- (iv) "Office of Food Safety Commissioner" means office of Food Safety Commissioner under the Health Department;

- (v) “Commission” means Bihar Technical Service Commission;
- (vi) “Act” means Food Safety and Standards Act, 2006 (Central Act 34 of 2006) (as amended from time to time);
- (vii) “Rules” means Food Safety and Standards Rules, 2011 and (as amended from time to time);
- (viii) “Service” means Bihar Food Safety Service;
- (ix) “Cadre” means Food Analyst Cadre under Bihar Food Safety Service;
- (x) “Central Examination Committee” means Central Examination Committee under Board of Revenue, Bihar;
- (xi) “Appointing Authority” means the Appointing Authority as defined in the Rules of Executive Business, Bihar, 1979.
- (xii) “Controlling Authority” means State Food Safety Commissioner;
- (xiii) “State Food Safety Commissioner” means any officer at the level of Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary to the Government appointed by the State Government under the provisions of section 30 of the Act and sub-rule 2.1.1 of the Rules.
- (xiv) “Appendix” means Appendix attached with these Rules.
- (xv) “Due date” means date of notification of these rules.

### 3. Constitution of Service–

- (1) The Food Analyst Cadre under Bihar Food Safety Service will be state level cadre. The structure of the cadre will be as follows:-

Serial	Name of Post	Category
1.	Food Analyst (Gazetted)	Basic Cadre
2.	Senior Food Analyst (Gazetted)	First Ladder
3.	Deputy Director, Laboratory (Gazetted)	Second Ladder

2. The sanctioned strength and pay scale/pay level of all categories of posts of the said cadre shall be the same as determined and approved by the Government from time to time.
3. The officers appointed/promoted/working before the due date shall be deemed to be automatically included in the equivalent post of this cadre.

### 4. Recruitment.-

- (1) The appointment in this service shall be made by direct recruitment to the basic category posts on the basis of recommendation of the Commission.
- (2) For direct recruitment, minimum educational qualification shall be as specified in Appendix -01.
- (3) For direct recruitment, minimum age limit shall be 21 years and the maximum age limit shall be the same as may be determined reservation category wise, from time to time, by the Government. 1st August of the advertisement year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

### 5. Recruitment Process.–

- (1) The Appointing Authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation category wise requisition to the Commission latest by 30th April.

- (2) In the light of the requisition, the Commission will advertise the vacancies and select eligible candidates as per rules and provide reservation category wise recommendation to the Department.
- (3) The papers and syllabus/topics of the written competitive examination will be the same as determined by the Commission in consultation with the Department.
- (4) After recommendation of the Commission, compliance of circulars/instructions issued by the Government from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be observed.
- (5) Before appointment, it will be mandatory for the candidates to submit an affidavit to the effect that they do not have any financial interest in manufacturing, import or sale of any food item.

**6. Probation Period.-** After appointment, all Food Analyst will remain on probation for one year. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Government may terminate probation of such Food Analyst for reasons to be recorded in writing.

**7. Training.-**

- (1) Under the probation period, it will be mandatory for the Food Safety Officer to undergo the prescribed training(including treasury training) as per the provisions of Bihar Government Servant's Probation Period Rules, 2024 (as amended from time to time).
- (2) It will also be mandatory to participate in-service training programmes organized from time to time by the State Government/ State Food Safety Commissioner/ Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi.

**8. Departmental Examination.-**It will be mandatory for Food Analyst to pass the prescribed departmental examination conducted by the Central Examination Committee (Revenue Board, Bihar). Syllabus for the departmental examination will be determined by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna in consultation with the department and with approval of the General Administration Department.

**9. Confirmation.-**After satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of Departmental Examination, Food Analyst may be confirmed in the service.

**10. Seniority.-**Inter-se-seniority of the officers appointed/working under the cadre will be determined in accordance with updated guidelines/circulars issued by the General Administration Department, Bihar, Patna from time to time.

**11. Promotion.-**

- (1) Subject to availability of vacancy, Food Analyst confirmed in service may be considered to be promoted to the posts in promotional ladder according to merit-cum seniority.
- (2) Compliance of instruction issued by the Government regarding KALAWADHI for promotion, from time to time, shall be necessary.
- (3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and Character Roll / P.A.R. allegation / departmental proceeding/ criminal proceeding, etc. shall be required at the time of consideration of promotion.
- (4) Promotions may be considered on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee. The structure of the Departmental Promotion Committee will be the same as may be

determined by the Government for Service Departments, from time to time.

**12. Reservation.**—Compliance of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government, from time to time, shall be necessary.

**13. Residuary Matters.**— For the subjects for which provisions have not been made in these Rules, provisions of concerned Code /Rules /Notifications /Resolutions /Instructions/ Circulars shall apply.

**14. Interpretation.**—If any doubt arises in the interpretation of any provision of these rules, the decision taken by the Department in consultation with the Law Department/General Administration Department shall be final.

**15. Removal of difficulty.**—If any difficulty arises in implementation of provision of these Rules, the Department may, in consultation with the Law Department / General Administration Department remove any such difficulty by general/special order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

**16. Repeal and Savings:—**

- (1) The Bihar Food Safety Service Rules, 2014 and the Rules, 2019 and 2021, resolutions, instructions, orders, etc., previously notified by the Department in relation to this Service Cadre Rules are hereby repealed with effect from the date of coming into force of these Rules.
- (2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken under such Rules, Resolutions, Instructions, Notifications, Orders, etc. shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

**By the order of Governor of Bihar,  
Lokesh Kumar Singh,  
Secretary to Government.**

**APPENDIX - 1**

[See Rule 2 (xiii), 3,4,11]

Hierarchy, educational qualification etc. of Food Analyst Cadre

Sl.No	Category	Name of Post	Direct recruitment or Promotion	Qualification
1	Basic Category	Food Analyst	By Direct Recruitment	(1) holds a Bachelor's or Master's or Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Agriculture Science or Animal Science or Fisheries Science or Biotechnology or Food safety or Food Technology, Food and Nutrition or Dairy Technology or Oil Technology or Veterinary Sciences from a university established in India by law or any other equivalent qualification notified by the Food Authority with the prior approval of the Central Government and has not less than three years' experience in the analysis of food; and (2) Candidate must have to pass the examination of Food Analyst held by FSSAI, New Delhi.
2	First Ladder	Senior Food Analyst	By Promotion	
3	Second Ladder	Deputy Director (Laboratory)	By Promotion	

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1252-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>